

!! ओ३म !!

फॉर्म-ए

सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातक महाविद्यालय साहिया, देहरादून

प्रवेश आवेदन पत्र 2021-2022

फॉर्म संख्या

कार्यालय प्रयोग हेतु
शुल्क प्राप्त किया
पंजी. शुल्क.....
तिथि.....
शिक्षण शुल्क.....
तिथि.....

हस्ताक्षर



आधार कार्ड संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पंजी. संख्या

प्रवेशार्थी का फोटोग्राफ
हस्ताक्षर सहित

हस्ताक्षर

श्रेणी (कृपया (✓) टिक करें)

Gen		SC		ST		OBC		EWS	
-----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत	%
--	---

- कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
 - विषय (1)..... (2)..... (3).....
 - छात्र/छात्रा का पूरा नाम (हिन्दी में)
- (अग्रेजी के बड़े अक्षरों में) (IN CAPITAL LETTERS)

- जन्म तिथि

--	--	--	--	--	--

 ईमेल
 - पिता का नाम श्री मोबाईल नं.
माता का नाम श्रीमती मोबाईल नं.
स्थायी पता: ग्राम खत पो.ओ.....
तहसील..... जनपद..... राज्य.....
मोबाइल (छात्र/छात्रा) व्हाट्सएप
 - स्थानीय संरक्षक का नाम
- पूरा पता ग्राम खत पो.ओ.....
तहसील..... जनपद..... मोबाइल नम्बर.....
- पूर्व शिक्षा संस्था जहाँ आपने अध्ययन किया था।
संस्था का नाम कक्षा
- अर्हकारी परीक्षा (Qualifying Examination) का पता

नोट: प्रवेश शुल्क (शिक्षण शुल्क) का भुगतान उत्तरांचल ग्रामीण बैंक चालान के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र-प्राप्ति रसीद

फॉर्म संख्या

नाम पुत्र/पुत्री

कक्षा के लिए चालान जमा करने की तिथि को आवेदन-पत्र प्राप्त किया।

विषय (1) (2) (3).....

पंजीकरण संख्या

--

नाम एवं हस्ताक्षर प्रभारी प्रवेश समिति/प्राप्तकर्ता

10 शैक्षणिक अभिलेखों का विवरण –

उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा निकाय/कॉलेज	अनुक्रमांक	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक विषय
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट या समकक्ष					
स्नातक (I II III) योग					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

नोट : यदि कोई गैप है तो उसका विवरण लिखें

11. क्या आपको कभी निलम्बित या निष्कासित किया गया है या प्रवेश से वंचित किया गया है अथवा क्या आप कभी परीक्षा में अनुचित साधन के दोषी पाये गये हैं ? विवरण दें।

संस्था कक्षा वर्ष
कारण दण्ड

प्रवेशार्थी द्वारा प्रतिज्ञा

मैं सत्य भाव से पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी तथ्य सही हैं और मैंने कोई भी बात जानबूझकर नहीं छिपाई है। मैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सभी नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी। मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ कि मैं महाविद्यालय के अनुशासन और कानून तथा व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी। यदि मैं इस प्रतिज्ञा को भंग करता/करती हूँ तो मुझे निलम्बन और निष्कासन सहित जो भी दण्ड दिया जाएगा मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

प्रवेशार्थी का पूर्ण नाम	हस्ताक्षर
--------------------------	-----------

माता/पिता द्वारा आश्वासन

मैं एतद्वारा आश्वासन देता हूँ/देती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री आश्रित सदा महाविद्यालय में सद्व्यवहार करेगा/करेगी तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करेगा/करेगी। यदि वह ऐसा करने में असफल होता/होती है तो महाविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह नियमानुसार उसको दण्डित करें, जिसमें निलम्बन और निष्कासन का दण्ड भी दिया जा सकता है।

तिथि

माता/पिता का पूर्ण नाम	हस्ताक्षर
------------------------	-----------

चैक लिस्ट

संलग्नों का विवरण (यदि संलग्न है तो टिक करें (✓) यदि संलग्नक नहीं है तो न देने का कारण लिखें)।

- | | |
|---|--|
| 1. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति <input type="checkbox"/> | 4. अर्हकारी परीक्षा के अंक तालिका की प्रमाणित प्रति <input type="checkbox"/> |
| 2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मूलरूप में <input type="checkbox"/> | 5. गैप का कारण बताते हुए शपथ-पत्र मूलरूप में <input type="checkbox"/> |
| 3. चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में <input type="checkbox"/> | 6. आधार कार्ड की छायाप्रति <input type="checkbox"/> |

कारण लिखें.....

प्रवेश का आदेश

प्रवेश की संस्तुति प्रवेश मान्य प्रवेश की संस्तुति नहीं प्रवेश अमान्य

● प्रवेश शुल्क दिनांक..... तक जमा करने का आदेश दिया जाता है।

प्रभारी प्रवेश समिति के हस्ताक्षर तथा नाम (तिथि सहित)

हस्ताक्षर प्रभारी प्रवेश समिति

हस्ताक्षर प्राचार्य/निदेशक

हस्ताक्षर अध्यक्ष

फॉर्म संख्या:

BAN ON RAGGING

Definition: Ragging means causing/inducing/compelling or forcing a student whether by way of practical joke or otherwise to do any act which detracts from human dignity or violates his esteem or exposes him to ridicule or to forbear from doing any lawful act by intimidating, wrongfully restraining, wrongfully containing or injuring him or by using criminal force to him or by holding out to him any threat of such intimidation, wrongful restraint, wrongful confinement, injury or the use of criminal force. Supreme Court imposes Penalty for ragging as a criminal offence.

Penalty for Ragging

1. No person who is a student in a educational institution, including an institution under the management of the university or of the central government shall commit or abet ragging.
2. Any person who indulges, in or abets ragging shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year. Ragging is a criminal and non-bailable offence.

Warning:

No leniency will be shown to the offenders involved in ragging. All students are requested note and co-operate in keeping SMR DEGREE COLLEGE SAHIYA free from ragging. (Please see UGC Regulations on curbing the menace of ragging at Page No).

Undertaking

1. I hereby certify that I am aware of above Laws on ragging and promise that
 - (a) I will not indulge in any form of ragging.
 - (b) I will not indulge in ragging of my juniors.
 - (c) I will report any case(s) of ragging, the moment I notice such a case to my Chief Proctor/DSW/Anti Ragging squad.
2. I also certify that I am aware that necessary action as per law will be insisted against me if I am at any time found guilty of ragging or abetting ragging.
3. I understand the contents of the above Ban on Ragging and the Undertaking which has been explained to me in the language I understand by my son/daughter

Signature of Parent.....

Signature of student.....

Name.....

Name.....

Address.....

Identity Card No.

Date.....

Date.....

पुलिस जाँच हेतु प्रपत्र

जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि राष्ट्र विरोधी व असमाजिक तत्व विभिन्न महाविद्यालयों में शरण ले रहे हैं। अतः जनपद के पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन जाँच हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं लिखित एवं स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित निम्न प्रपत्र आवेदन- पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। किसी भी सत्य जानकारी को छुपाना दण्डनीय अपराध है। जिसके लिये छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

सत्यापन प्रपत्र

छात्र/छात्रा का नाम	पिता/माता का नाम	वर्तमान पता एवं दूरभाष नम्बर	स्थायी पता (पोस्ट थाना, तहसील, मोहल्ला जिला, राज्य सहित) एवं दूरभाष नम्बर	अध्यनरत/प्रवेश की कक्षा एवं पाठ्यक्रम

पिता/माता के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम

नाम

दिनांक

दिनांक



!! ओ३म !!

फॉर्म-डी

सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातक महाविद्यालय साहिया, देहरादून

प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित

फॉर्म संख्या

सहमति प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि (छात्र/छात्रा) का नामके
माता/पिता श्रीमती/श्री.....निवासी ग्राम पंचायत.....
ब्लॉक..... के निवासी है और यह किसी भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत नहीं है।

कोरोना संक्रमण से उत्पन्न लॉकडाउन के कारण श्री.....
आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं यह अपने पुत्र/पुत्री.....का प्रवेश
शुल्क (शिक्षण शुल्क) जमा करने में असमर्थ हैं।

मैं (छात्र/छात्रा) का नाम..... का प्रवेश निःशुल्क करने हेतु
अनुमोदन करता/करती हूँ।

प्रधान का नाम.....

ग्राम पंचायत.....

हस्ताक्षर व मोहर (प्रधान)

मोबाइल नम्बर.....

छात्र/छात्रा एवं माता/पिता द्वारा हस्ताक्षरित

अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र

मैं (माता/पिता) का नाम..... स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि
मेरे आश्रित पुत्र/पुत्रीका प्रवेश कक्षा/पाठ्यक्रम.
..... में निःशुल्क हुआ है।

अतः मैं आश्वासन देता हूँ/देती हूँ कि यदि मेरे आश्रित पुत्र/पुत्री को समाज कल्याण विभाग से शिक्षण शुल्क
(छात्रवृत्ति रुपये 3000/- छोड़कर) प्राप्त होता है तब महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि मेरे आश्रित पुत्र/पुत्री
द्वारा महाविद्यालय कार्यालय में जमा बैंक के माध्यम से शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करें। इसमें मेरे आश्रित पुत्र/पुत्री
को कोई आपत्ति नहीं है।

मैं (छात्र/छात्रा) का नाम..... शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु
बैंक संख्या..... बैंक का नाम..... पक्ष में सरदार महिपाल राजेन्द्र
स्नातक महाविद्यालय के नाम जमा कर रहा हूँ/रही हूँ।

हस्ताक्षर (माता/पिता)

हस्ताक्षर (छात्र/छात्रा)

साक्षी (शिक्षा/शिक्षणेत्तर कर्मचारी

दिनांक.....

दिनांक.....

नाम:

नोट: अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर प्राचार्या/प्रवेश प्रभारी/साक्षी के समक्ष उपस्थित होकर करने पर ही निःशुल्क प्रवेश देय होगा।



!! ओ३म !!

सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातक महाविद्यालय साहिया, देहरादून
अनिवार्य फॉर्म

फॉर्म संख्या

पंजीकरण आवेदन पत्र 2021-2022

आधार कार्ड संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

श्रेणी (कपया (✓) टिक करें)

Gen		OBC		EWS	
-----	--	-----	--	-----	--

SC		ST	
----	--	----	--

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको के प्रतिशत %

प्रवेशार्थी का फोटोग्राफ
हस्ताक्षर सहित

- कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए.....
- विषय (1)(2)(3).....
- छात्र/छात्रा का पूरा नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- जन्मतिथि ईमेल.....
- मोबाइल नं..... व्हाट्सएप नम्बर.....
- पिता का नाम श्री..... मोबाइल नं.....
- माता का नाम श्रीमती मोबाइल नं.....
- स्थायी पता:
ग्राम.....पो.ओ.....खत.....
तहसील..... जिला.....पिन कोड
- पूर्व शिक्षण संस्थान जहाँ आपने अध्ययन किया था।
स्कूल का नाम:कक्षा.....

कार्यालय उपयोग हेतु

पंजी. शुल्क रुपये 1000/-

पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि.....

नोट: पंजीकरण शुल्क वापसी देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर प्रभारी प्रवेश समिति /प्राप्तकर्ता

पंजीकरण आवेदन पत्र-प्राप्ति रसीद

नाम पुत्र/पुत्री श्री
कक्षा के लिए प्रवेश आवेदन पत्र एवं शुल्क चालान जमा करने की तिथि तक
पंजीकरण आवेदन-पत्र प्राप्त किया।

विषय (1)(2) (3).....

नोट: पंजीकरण शुल्क वापसी देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर प्रभारी प्रवेश समिति /प्राप्तकर्ता